Jaykay Enterprises Limited



August 09, 2025

To Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 500306 ISIN: INE903A01025

Sub: Newspaper Advertisements - Unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements pertaining to the extract of financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 published today i.e. August 09, 2025, in the following newspapers:

- Business Standard-English (All India Editions)
- ❖ Aaj-Hindi (Kanpur Edition)

This disclosure will also be hosted on the Company's website viz. www.jaykayenterprises.com.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you

Yours Faithfully,

For Jaykay Enterprises Limited

Shikha Rastogi Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above



Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur- 208001 (INDIA)

Phones: +91 512 2371478 - 81

E-mail: cs@jaykayenterprises.com, Web: www.jaykayenterprises.com

CIN: L55101UP1961PLC001187

DIAMOND POWER INFRASTRUCTURE LIMITED

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2025

In compliance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of Diamond Power Infrastructure Limited ("Company") at their meeting held on Friday, August 8, 2025 approved the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended June 30, 2025 ("Results")".

The results, along with the Limited Review Report (Standalone and Consolidated) by M/s Naresh and Co. Chartered Accountants, Statutory Auditors of the Company are available on the website of the Company at https://dicabs.com/investor/quarterly-results/ and websites of the Stock Exchanges, i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

In compliance with Regulation 47 of the Listing Regulations, we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:

Ahmedabad, Date: August 8, 2025

For Diamond Power Infrastructure Limited

Samir Naik Chief Financial Officer & Whole-time Director DIN: 11208141

Place: Chennai

Date : August 8, 2025

Chola Cholamandalam Financial Holdings Limited



CIN: L65100TN1949PLC002905

Regd. Office: 'Dare House', No.234, N.S.C. Bose Road, Chennai - 600 001. Tel: 044 - 40907638 / 25306486; Email: investorservices@cfhl.murugappa.com; Website: www.cholafhl.com

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

The Board of Directors of the Company at their meeting held on August 8, 2025, approved the un-audited financial results for the guarter ended June 30, 2025. Pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the results have been submitted to the stock exchanges and are available on their websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and also posted on the Company's website at https://cholafhl.com/investors/greports which can be accessed by scanning the Quick Response Code.

For and on behalf of the Board

M M Murugappan Chairman DIN: 00170478

Revathi Equipment India Limited

(Formerly known as Renaissance Corporate Consultants Limited) Registered Office: Pollachi Road, Malumachampatti Post, Coimbatore - 641 050 Ph: +91-4226655100 CIN:L74999TZ2020PLC033369

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED $\mathbf{30}^{\mathsf{TH}}$ JUNE $\mathbf{2025}$

In compliance with the Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations), the Board of Director of the Company at its meeting held on 08 August 2025 approved the unaudited standalone and consolidated financial results of Revathi Equipment India Limited (Formerly known as Renaissance Corporate Consultants Ltd) along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors of the Company for the quarter and period ended 30th June 2025

The aforementioned financial results along with the Limited Review Reports of the Statutory Auditors thereon are available in the Company's website https://www.revathi.in/investor-relations/financials/quarterly-results/ and in the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

In compliance with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations we would like to inform you that the financial results of the Company can also be accessed by scanning the QR code given below:

Date: 8th August 2025 Place: Coimbatore



Scan the QR code to view the results on the website of the Company

For Revathi Equipment India Limited Abhishek Dalmia Chairman and Managing Director

DIN: 00011958



Date: August 08, 2025 Place: New Delhi

JAYKAY ENTERPRISES LIMITED

CIN: L55101UP1961PLC001187 REGISTERED OFFICE: KAMLA TOWER, KANPUR, UP- 208001 Tel:-+91 512 2371478-81

E-mail: cs@jaykayenterprises.com | Website: www.jaykayenterprises.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE **QUARTER ENDED JUNE 30, 2025**

In Compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of Jaykay Enterprises Limited (the "Company") at its meeting held on Friday, August 08, 2025, approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) of the Company, as reviewed by the Audit Committee, for the quarter ended June 30, 2025.

The financial results of the Company are available on the website of the Company at www.jaykayenterprises.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. In compliance of Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, we hereby inform that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:

> For Jaykay Enterprises Limited **Abhishek Singhania Chairman & Managing Director**

> > DIN: 00087844



Manufacturer & Exporter of Male Condoms, Female Condoms, Water Based Lubricant and In Vitro Diagnostics (IVD)

A-68, M.I.D.C. (Malegaon), Sinnar, Nashik-422 113, Maharashtra, India,

E-mail: cs@cupidlimited.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2025

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on August 8, 2025 approved the unaudited financial results of the Company, for the quarter ended 30th June, 2025.

The results, along with the Auditor's Limited Review Report, have been posted on the Company's website at https://www.cupidlimited.com/financial-reports/ and can be accessed by scanning the QR code.



For Cupid Limited

SD/-Aditya Kumar Halwasiya

Chairman and Managing Director

Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



Place: Mumbai

Date: 8th August, 2025

Gujarat Alkalies and Chemicals Limited (An ISO Certified Company) (Promoted by Govt. of Gujarat) Regd. Office: P.O. Ranoli - 391 350, Dist. Vadodara (Gujarat) INDIA. CIN: L24110GJ1973PLC002247 | E Mail: investor_relations@gacl.co.in; cosec@gacl.co.in | Website: www.gacl.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30[™] JUNE, 2025

								(F	Rs. in lakhs)
		Standalone Consolidated							
			Quarter Ended			ed Quarter Ended		1	Year Ended
Sr. No	. Particulars	30/06/2025	31/03/2025	30/06/2024	31/03/2025	30/06/2025	31/03/2025	30/06/2024	31/03/2025
			Refer note 6				Refer note 6		
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Total Income from Operations	1,10,512	1,07,547	97,730	4,07,291	1,10,512	1,07,547	97,730	4,07,291
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	955	2,275	(3,044)	972	(1,202)	1,019	(5,028)	(7,122)
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	779	2,138	(2,469)	1,582	(1,378)	882	(4,453)	(6,512)
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the	21,115	(23,250)	31,430	(22,327)	18,958	(24,510)	29,446	(30,425)
	period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]								
5	Equity Share Capital	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344	7,344
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited				5,95,295				5,59,614
	Balance Sheet of previous year								
7	Earning Per Equity Share (of Rs. 10/- each): (Before Other								
	Comprehensive Income) (Not Annualised)								
	a) Basic (in Rs.)	1.06	2.91	(3.36)	2.15	(1.88)	1.20	(6.06)	(8.87)
	b) Diluted (in Rs.)	1.06	2.91		2.15	(1.88)	1.20	(6.06)	(8.87)

Place : Gandhinagar

Date: 8th August, 2025

The above financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules.

2 The above results have been reviewed by the Audit Committee of Directors and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 7n

3 The Financial Results for the quarter ended 30th June, 2025 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company

Share of Loss in Material Subsidiary, GACL-Nalco Alkalies & Chemicals Private Limited (JV) for the quarter ended June 30, 2025 includes proportionate share of notional gain to the tune Rs.681.04 lakhs, on account of revaluation of financial liability on Compulsorily Convertible Debentures (CCDs) by JV. The same has resulted in increase of total

GACL-Nalco Alkalies & Chemicals Private Limited, Material Subsidiary (JV) has experienced a technical issue in its manufacturing operations, resulting into plant shutdown Plants of the Company at Dahej.

5 The figures of quarter ended 31" March, 2025 are the balancing figures between audited figures of the full financial year ended 31" March, 2025 and the published year to date figures upto third quarter ended 31st December, 2024, which were subjected to limited review.

The Company's operations fall under single segment namely "Chemicals" as per Ind AS - 108 "Segment Reporting".

8 In accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Statutory Auditors have carried out a limited review of the consolidated financial results for the quarter ended 30° June, 2025.

The Consolidated Financial Results includes result of 60% equity of Material Subsidiary company - GACL-NALCO Alkalies & Chemicals Pvt. Ltd (JV).

10 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the first quarter ended on 30th June, 2025 are available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com & www.nseindia.com and Company's website www.gacl.com

MEGASOFT LIMITED

CIN: L24100TN1999PLC042730,

Registered Office: #85, Kutchery Road, Mylapore, Chennai, India - 600 004. Corporate Office: 8 th Floor, Unit No.801 B, Jain Sadguru Image's Capital Park, Image Gardens Rd, Madhapur, Hyderabad, Telangana – 500081. Telangana, India. Phone: +91-44-24616768 Fax: +91-44-24617810, Email: investors@megasoft.com Website: www.megasoft.com

Stalldalolle				Consolidated				
Quarter ended 30 June 2025	Quarter ended 30 June 2024	Quarter ended 31 March 2025	Year ended 31 March 2025	Particulars	Quarter ended 30 June 2025	Quarter ended 30 June 2024	Quarter ended 31 March 2025	Year ended 31 March 2025
18765.08	761.13	1238.07	4128.44	Total income from operations (net)	18746.41	761.13	1265.91	4156.28
16743.55	53.58	343.88	847.51	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	16722.79	52.14	344.42	844.73
16743.55	53.58	343.88	847.51	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16722.79	52.14	344.42	844.73
13643.55	53.58	343.88	847.51	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13622.79	(1677.70)	(475.84)	(2993.74)
13643.55	53.58	349.56	853.19	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	13622.79	(1677.70)	(1172.52)	(3690.42)
7377.00	7377.00	7377.00	7377.00	Equity Share Capital	7377.00	7377.00	7377.00	7377.00
27474.65	10257.76	11057.38	11057.38	Other Equity(Excluding Revaluation Reserve)	20613.90	6230.11	4217.38	4217.38
10.40	0.07	0.47	1.15	Earnings Per Share (after extraordinary items) of Rs. 10/- each	18.47	(2.27)	(0.65)	(4.06)
18.49 18.49	0.07	0.47	1.15 1.15	Basic Diluted	18.47	(2.27)	(0.65)	(4.06)

For Megasoft Limited

Date: 08.08.2025 Place: Hyderabad

ed by scanning the QR Code The Financial Results can be

Sunil Kumar Kalidindi

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results for the quarter and three months ended 30 June 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and website of the Company i.e. http://megasoft.com/investor



Regd. Office: Plot No. B-12 to B-15, Phase II, MEPZ-SEZ, Tambaram, Chennai - 600045 Phone No: +91-44-42298199 / 22628199 E-mail: investorservices@igarashimotors.co.in Website: www.igarashimotors.com CIN: L29142TN1992PLC021997

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025

SI			Year ended		
	Particulars	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25
No.		(unaudited)	(Audited)	Unaudited	(Audited)
1	Revenue from operations	20,471.25	18,947.34	22,207.06	83,842.11
2	Profit / (loss) before tax	336.23	399.95	1,092.24	3,250.59
3	Profit / (loss) for the period	250.97	306.14	816.03	2,416.83
1	Total comprehensive income / (loss) for the period / year	53.76	(198.94)	14.73	(245.70)
5	Paid up equity share capital (Face value of Rs. 10 each)	3,147.50	3,147.50	3,147.50	3,147.50
6	Earnings per share (Rs.)				
	(Not annualised in the quarters)				
	(i) Basic	0.80	0.97	2.59	7.68
	(ii) Diluted	0.80	0.97	2.59	7.68

The Board of Directors of Company, at the meeting held on August 07, 2025, approved the standalone Un-audited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025.

Investors are encouraged to access the detailed financial results, along with the Limited Review Report issued by the Statutory Auditors, by scanning the QR code below or visiting our official website.

For and on behalf of Igarashi Motors India Limited

Sd/-R Chandrasekaran **Managing Director**

This advertisement is in compliance with Regulation 33 & 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and

Webpage Link: https://www.igarashimotors.com/investor-list.php?invescatid=16

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

: August 07, 2025

Place : Chennai



आज कानपुर 9 अगस्त 2025

क्रोमा में स्वतंत्रता दिवस के लिए शानदार डील्स नयी दिल्ली। टाटा समह का ओम्नी-चैनल इलेक्टॉनिक्स रिटेलर कम्पनी ऋोमा ने स्वतंत्रता दिवस सेल शुरू की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक विस्तृत श्रृंखला पर धमाकेदार डील्स और अब तक की सबसे बड़ी छूट दी जा रही हैं। 17 अगस्त तक इस सेल का लाभ उठाया जा सकता है। ऋोमा के 560 से ज्यादा स्टोर्स में इस सेल में बंपर डील्स उपलब्ध हैं। स्मार्टफोन से लेकर टीवी, रेफ़्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और कई अन्य उत्पादों को सेल में शामिल किया है।

टैरिफ चिंताओं में शेयर बाजार टूटा

ऑटो, फार्मा व बैंकिंग शेयरों में भारी बिकवाली हावी

मंबई. 8 अगस्त (ईएमएस)। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच ही भारतीय शेयर बाजार शुऋवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही ऑटो, फार्मा व बैंकिंग शेयरों

में बिकवाली हावी 🔳 सेंसेक्स ७६५.४७ अंक गिर रहने से आयी है। बीएसई मिडकैप व कर ७९,८५७.७९ पर बंद

स्मालकैप के शेयर भी गिरे। इसके अलावा बीएसई के सभी सेक्टरों में भी गिरावट रही। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 765.47 अंक टूटकर 79,857.79 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी निफ्टी 232.85 अंक नीचे आकर

24,363.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

शुऋवार को एनएसई पर 3,038 शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें र्से 984 शेयरों में तेजी रही। वहीं 1,969 शेयरों में गिरावट रही जबकि 85 शेयरों पर कोई प्रभाव नहीं नहीं पड़ा। सबसे अधिक 🏻 की गिरावट के साथ 609.65 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इंडसइंड



नुकसान भारती एयरटेल के शेयरों को हुआ और ये 64 रुपये की गिरावट के साथ ही 1,858.60 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। वहीं अडाणी एंटरप्राइज़ का शेयर 71.70 रुपये नीचे आकर 2,178.10 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। श्रीराम फाइनेंस का शेयर 17.70 रुपये

बैंक का शेयर 24.90 रुपये की गिरावट के साथ 782.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के शेयर में 66.90 रुपये की गिरावट आयी और ये 3,144.20 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। वहीं गत दिवस बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। वहीं इससे पहले सुबह बाजार कमजोर निफ्टी २३२.८५ अंक लढ़क रुख के साथ खुला। कर २४,३६३.३० पर बंद शुरुआती कारोबार में

फाइनेंशियल सेक्टर में दबाव देखा गया। सुबह सेंसेक्स 272.30 अंक गिरकर 80,350.96 पर और निफ्टी 75.60 अंक टूटकर 24,520.55 पर कारोबार कर रहा था। बाजार विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी के लगातार कमजोर स्तर बाजार की तकनीकी कमजोरी को दर्शाते हैं। बुनियादी तौर पर भी वित्त वर्ष 2025-26 में कम्पनियों की आय में कोई बड़ा उछाल नजर नहीं आ रहा है। बाजार के जानकारों ने कहा कि भारत-अमेरिका टैरिफ तनावों के कारण विदेशी निवेशकों (एफआईआई) बिकवाली जारी रही।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा

मुंबई, 8 अगस्त (ईएमएस)। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुऋवार को रुपया तीन पैसे गिरावट के साथ ही 87.61 पर बंद हुआ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में कारोबार करते हुए पांच पैसे ट्रटकर 87.63 पर आ गया। व्यापारिक अनिश्चितता और मजबत अमेरिकी डॉलर के कारण रुपया दबाव में है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक रुपये को लगभग 87.95 के स्तर पर बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. लेकिन विदेशी निवेशकों द्वारा निरंतर पूंजी निकासी से स्थानीय मुद्रा कमजोर हो रही है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 87.56 पर खुला और कारोबार के दौरान 87.63 के

भारत ने रूसी सस्ते कच्चे तेल की

(ईएमएस)। भारत ने जनवरी 2022 से जन 2025 के बीच रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद से लगभग 15 अरब डॉलर (करीब 1.25 लाख करोड़) की बड़ी बचत की है। सूत्रों के आधार पर यह जानकारी मिली है। इस बचत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे इस साल की 1.2 लाख करोड़ की यूरिया सब्सिडी पूरी तरह चुकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2023 में सबसे अधिक बचत हुई, लगभग ७ अरब डॉलर, जब जी७ देशों ने रूस पर तेल की कीमत सीमा (प्राइस कैप) लगायी थी।

प्रति बैरल 15-20 डॉलर सस्ता बेचने का विकल्प दिया। हालांकि अब यह छूट घटकर 2 डॉलर से भी कम रह गयी है. जिससे जनवरी से जुन 2025 के बीच बचत घटकर 1.8 अरब डॉलर रह गयी। तेल विशेषज्ञ के मताबिक अमेरिकी टैक्स के प्रभाव का अंदाजा अभी लगाना मश्किल है। आने वाले हफ्तों में ट्रैंड टॉक्स, क्वाड बैठक, विदेश मंत्री की रूस यात्रा और एससीओ शिखर बैठक के बाद इस पर स्पष्टता आयेगी। साबित हो रही है, खासकर वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता के बीच।

निर्यात को बढ़ावा देंगे अमेज़न और एफआईईओ

नयी दिल्ली, 8 अगस्त। अमेज़न इंडिया ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से निर्यात को बढ़ाव देने के लिए भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। अमेजन और एफआईईओ इस गठजोड़ के जिरये एक समर्पित ई-कॉमर्स निर्यात कार्य बल का गठन करेंगे जो संयक्त रूप से एक नीति और बनियादी ढांचे का खाका तैयार करेगा। इस नीति और बनियादी ढांचे के जरिये विक्रेताओं की मदद की जायेगी और पूरे भारत में एमएसएमई के बीच ई-कॉमर्स से जुड़े निर्यात अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ायी जायेगी। यह साझेदारी देश भर के छोटे व्यवसायों और विनिर्माताओं की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। एफआईईओ के महानिदेशक डॉ. अजय सहाय ने कहा कि भारत के एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में योगदान करने की अपार क्षमता है। अमेजॅन के साथ साझेदारी करके हमारा लक्ष्य कारीगरों, बुनकरों और निर्माताओं सहित छोटे व्यवसायों की क्षमता का निर्माण करना है ।

, No. JHS-ELG-W-T-11-2025-26 निविदा सूचना विनाकः 06.08.202

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से वरि. मंडल विद्युत अभियन्ता (सामान्य), उत्तर मध्य रेल, झाँसी द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये ऑनलाईन **(ई-टेन्डरिंग)** के माध्यम से खुली नेविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का विवरणः विद्युत/जी कार्यः झांसी हिवीजनः झांसी हिवीजन (चरण -2) पर एबीसी केबल द्वारा एलटी ओवरहेड लाइन का प्रतिस्थापन।

निविदा राशिः रू. 2,40,19,830/- मात्र बयाना राशिः रू. 2,70,100/- मात्र

निविदा संः झॉसी-ईएलजी-डब्ल्यू-टी-11-2025-26 कार्य समापन अवधिः 06 माह निविदा बंद होने की तिथि:- 29.08.2025 (15:00 बजे तक), निविदाकार निविदा दिनांव 29.08.2025 को 15:00 बजे तक आनलाईन जमा कर सकेगें। पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुित रने के लिये भारतीय रेल के वेबसाईट http://www.ireps.gov.in पर देखें। 1411/25 (D)

उत्तर मध्य रेलवे

ई-प्रापण निविदा सूचना सं.ः हांसी/उमुसाप्र/2025/16

विनांक: 05.08.2025

गरत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य सामग्री प्रबंधक सामान्य भंहार हिपो झांसी निम्नलिखित मदों

के लिए ई-प्रापण निविदायें आमंत्रित करते हैं। निविदा संख्याः 51255733 बयाना राशिः रु. 138060/-

मा<mark>ल का विवरणः</mark> 400 एम्पियर 11 केवी एचटी "वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी) पेनल इंडोर प्रकार की आपूर्ति, स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग सभी संबंधित उपकरणों और संबंधित कार्य के साथ

आरएसके/एसटीएलआई/जीडब्ल्यूएल में टर्नकी आधार पर और संलग्न विनिर्देश संख्या भारएसके/ईएल/एमएंडपी/वीसीबी दिनांक 18.12.2023 के अनुसार मेक-श्राइडर/कोरोनेत इंजीनियर्स/एबीबी/सीमेंस/क्रॉम्पटन ग्रीव्स या समान।

निविदा खुलने की तिथिः 22.08.2025

नोटः 1. उपरोक्त सभी ई-प्रापण निविदा का पूरा विवरण IREPS वेबसाइर http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है । 2. उपरोक्त निविदाओं हेतु ई-बिंड के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। वेंडरों को चाहिये कि वे अपने आपको आई टी एक्ट 2000 के अंतर्गत CCA द्वारा जारी Class III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ आईआरपीएस की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। 3. निविदा की दरें केवल डिजिटल हस्ताक्षरित फाइनेंसियल रेट पर ही विचारणीय है। दरें तथा अन्य वित्तीय प्रभार अन्य किसी भी फार्म लेटर हेड पर यदि संलग्न है तो उस पर वेचार नहीं किया जायेगा तथा सीधी तौर पर अमान्य कर दिया जायेगा। 1413/25 (ADM)

f North central railways 🌐 www.ncr.indianrailways.gov.in 🛚 💢 @ CPRONCR

उत्तर मध्य रलव

ई-निविदा सूचना सं. ई टी-56/विद्युत/कोचिंग-प्रया0/2025-26

गरत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता (कोचिंग) उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराः

निम्नलिखित कार्य के लिए निर्धारित फार्म पर E-Tender दि0 01.09.2025 समय 15:00 बजे तक भामन्त्रित करते है। निविदा के सम्बन्ध में मुख्य सूचनायें निम्नवत् है-

निविदा सं. : ETCHG-56 समयावधि : ०६ माह **कार्य का नाम**ः प्रयागराज मंडल में एलएचबी प्रकार के कोचों में एसबीसी पैनल के एचटी कम्पार्टमेंट और डिस्कनेक्टिंग और अर्थिंग डिवाइस के लिए ईपीडीएम मॉड्यूलर केबल सीलिं

कार्य की लागत (२०० में) : Rs. 66,61,560.15 | धरोहर राशि (२०० में) : Rs. 1,33,200.00 टेन्डर फार्म की कीमत (रू0 में) : NIL निविदा का प्रकार : Works (Open Tende नोटः 1. उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण (निविदा प्रपत्र सहित) वेबसाइट www.ireps pov.in पर समय 15:00 बजे टेण्डर खुलने की तिथि तक उपलब्ध है। 2. उपरोक्त निविदा म -बिड के अलावा किसी अन्य रूप से बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु वेन्डर

हो चाहिये कि वे अपने आपको I.T. Act-2000 के अन्तर्गत CCA द्वारा जारी Digital हस्ताक्ष माण पत्र के साथ IREPS की वेबसाइट पर पंजीकृत करायें। 3. निविदा की दरें केवल डिजिटल हस्ताक्षरित फाइनेंसियल रेट पेज पर ही विचारणीय है। दरें तथा अन्य वित्तीय प्रभार भन्य किसी भी फार्म/लेटर हेड पर यदि संलग्न है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा तथ सीधी तौर पर अमान्य कर दिया जायेगा। ४. संलम्न किये जाने सभी प्रपत्र निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिये। 5. निविदा सूचना को निम्नलिखित वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है- www.ncr.indianrailways.gov.in ६. किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान के लिये IREPS की वेबसाइट की हेल्प लाइन से सम्पर्क किया जा सकता है। 7. ईएमडी का भुगतान केवल ऑनलाइन कई बैंक की नेट, हेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम र 1430/25 (AS)



भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सविधा को ध्यान में रखते हा रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के अवसर पर निम्नलिखित विशेष रेलगाहियों के संचालन एवं फेरों में वृद्धि का निर्णय लिया गया है , जिसका विवरण निम्नवत है:-

गाड़ी सं	. 09817 कोटा	- दानापुर	गाड़ी सं.09818 दानापुर - कोटा				
आगमन	प्रस्थान	स्टेर	शन	आगमन	प्रस्थान		
	21:25	कोटा	जं.	1 22:25			
09:30	09:32	मानिक	रुर जं.	08:00	08:05		
11:35	11:40	प्रयागराज	छिवकी	05:45	05:50		
13:10	13:12	मिज	पुर	03:40	03:42		
18:30		दान	पुर		21:15		

कोटा सेः गाड़ी सं. 09817, शनिवार दिनांक- 09.08.2025, दानापुर सेः गाड़ी सं. 09818, रविवार दिनांक- 10.08.2025, **संरचनाः** सामान्य श्रेणीः 04, स्लीपर श्रेणीः 07, वातानुकूलित तृतीय श्रेणीः ०५, इकोनोमिक कोचः ०१, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणीः ०२, वातानुकूलित प्रथम सह द्वितीय श्रेणीः ०१

ायागराज सेः गाड़ी सं. 02421 , दिनांक- 10.08.2025 एवं 17.08.2025 **दिल्ली से**: गाड़ी सं. 02422, दिनांक- 11.08.2025 एवं 18.08.2025

2022) भगवती किरार वादी Vs संतोष सिंह प्रतिवादी Process id-2023 पेशी दिनांक 16.09.2025 प्रेषिती- (1) संतोष सिंह पिता प्रेम सिंह पता – हाल ज्ञान पूरा थाना फूप जिला भिंड न. प्र. (२) कन्हैया सिंह पिता राम अवतार सिंह भदौरिया पता- गांव रगपुरा पोस्ट मरौली जिला इटावा यूपी यह कि प्रार्थी भागवती किरार ने आपके विरुद्ध के लिए वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद क उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने

Court of IX Additional Moto

Accident Claims Tribunal, Distric

आत्मा राम टॉक (आदेश 5 नियम 20

व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत

प्रकाशन हेतु) (MACC/0001107

के लगे सम्मन किया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे य शक्ति में है पेश करें जिन पर आपको प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी टस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे य शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नर्ह होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपरिथति मे माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 28 जुलाई 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। आज्ञा से- सदस्य नवम अति. दु. अभि. ग्वालियर

श्रीमान ए.सी.जे.7(जू.डि.) कानपुर नगर प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं. 1895/21 प्रीत मॉग वयस्क पत्नी मविन्दर सिंह उम्र 27 वर्ष पुत्री बलविन्दर सिंह नि. म.नं. 125 E.W.S वर्रा-2 कानपुर नगर प्रार्थिनी / वनाम 1 मनिन्दर सिंह वयस्क पुत्र स्व. हरजीत सिंह मोंगा (पति) 2. श्रीमती अमरजीत मोंगा क्ती स्व. हरजीत सिंह मोंगा (सास) नेवासीगण , हाजी बिल्डिंग इंडिया होटल पीछे शाहजहाँपुर थाना सदर जिला शाहजहाँपुर 3. श्रीमती इन्द्रजीत कौर ायरक पत्नी भूपेन्दर सिंह (ननद) 4. पेन्दर सिंह वयस्क पुत्र अज्ञात ३ लागायत निवासीगण लुधियाना..... प्रतिवादीगण/

परिवादिनी ने अपने विरुद्ध के परि वाद रिथत किया है। आपको इस न्यायालय मे गरीख 13.8.25 को दिन में 10.30 जो ावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर) होने के लिये समन किया जात आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं। जिसके ाम्यक अनुदेश किये गये हों और इस वाद से सम्बन्धित सभी साखान प्रश्नों को उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेजों जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजदाई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज रप गहे वहआपके कब्जे में शक्ति में हो या न हो गपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या तिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों की लिखिर क्थन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सुची

आपाको सूचित किया जाता है कि यदि गप ऊपर बताई गई तारीख को इस यायालय में उपंसजात नहीं होंगे तो वाद की नुनवाई और उसका निपटारा आपकी

नुपरिथति में किया जायेगा। यह आज ता. 18.5.25 को मेरे हस्ताक्ष ते और न्यायालय की मुहर लगाकर दिय ाया। है। आज्ञा से-श्रीमान ए.सी.जे.7 जू.डि.) कानपुर नगर।

एलआईसी की शुद्ध आय में 5.02 प्रतिशत की वृद्धि

भारतीय जीवन बीमा निगम ने जारी किये 30 जून को समाप्त तिमाही के परिणाम

कानपुर, 8 अगस्त। एलआईसी के निदेशक मंडल ने वृद्धि है। 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 30 जुन को समाप्त तिमाही के बेहतरीन परिणाम जारी समूह व्यवसाय की कुल प्रीमियम आय 47,726 करोड़ किये हैं। 30 जुन को समाप्त तिमाही में कर - पश्चात रुपये थी, जबकि 30 जुन 2024 को समाप्त तिमाही के लाभ (पीएटी) में 5.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। लिए यह 46,578 करोड़ रुपये थी, जो 2.46 प्रतिशत पहली तिमाही में इस वर्ष 10,986 करोड़ रुपये आय की वृद्धि दर्शाती है। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही रही जबिक 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए के दौरान व्यक्तिगत रूप से कुल 30,39,709 यह 10,461 करोड़ रुपये था। एलआईसी 63.51 पॉलिसियां बेची गयीं, जबिक 30 जून 2024 को समाप्त

हिस्सेदारी के साथ भारतीय जीवन बीमा व्यवसाय में बाजार में अग्रणी बनी हुई है। 30 जून को 💻

तिमाही के लिए कुल प्रीमियम आय 1,19,200 करोड़ रुपये थी, जबकि 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के की वृद्धि दर्ज की है। 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कल व्यक्तिगत व्यवसाय प्रीमियम पिछले वर्ष की इसी अवधि के 67,192 करोड़ रुपये से बढ़कर 71,474 करोड़ रुपये हो गया, जो 6.37 प्रतिशत की

बाजार भाव

दयालू ज्वलस

59/45 बिरहाना रोड, कानपुर

25000 की खरीद पर निश्चित उपहार

BIS A HALLMARK Gold Jewellery

7651966520 ,9336251965

चाँदी १९१ (प्रति किलो)- 118950,

सिकुका (प्रति नग) लिवाल-1300, सिक्का

(प्रति नग) बिकवाल-1350, सोना बिसकुट

(दस ग्राम)-103900, गिन्नी (प्रति नग)-

अनाज (प्रति कुन्तल)

गेह दड़ा 2525-2575, आरआर-21

2650-2700 गेहू फारम 2750-2800, जौ

2300-2400, ज्वार 2000-2700, बाजरा

दलहन

चना 6100-6200 अरहर 5500-6000,

मसूर 5650-5850, मटर 3250-3300,

उड़द हरा 9000-9100, उड़द काला 600

7000, मूंग 6800-6900

दाल (प्रति कुन्तल)

अरहर फूल 10500-

10600, अरहर स्पेशल

7600-7700, चना दाल

7300-7400 मटर दाल

4000-4050 मसुर मलका

7200-7250 मसूर दाल

7450-7500 उड़द दाल

9500-11500, मूंग दाल

7000-8000, मूंगधोवा

तिहलन (प्रति क्विं

8000-8700 ,मूंगफली दाना

शिवपुरी-8200-9800

तेल (प्रति कुन्तल)

सरसों कोल्हू 16900-

बटाली 8400-9600, सेह्आ

8000-9500

4600-5000,

4000 -4500

14700

2400-2450, मकाई 2400-2500

IGI Diamond Jewellery Certified

तिमाही के दौरान 35,65,519 पॉलिसियां बेची गयीं. यानी बाजार हिस्सेदारी पर काबिज 14.75 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। 30 जून 2025 को समाप्त

समाप्त तिमाही के लिए एलआईसी की व्यक्तिगत तिमाही के लिए नए व्यवसाय का मुल्य (वीएनबी) व्यवसाय में 38.76 प्रतिशत और समूह व्यवसाय में 1,944 करोड़ रुपये था, जबकि 30 जून, 2024 को 76.54 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी थी। 30 जून को समाप्त समाप्त तिमाही के लिए यह 1,610 करोड़ रुपये था, जिसमें 20.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। एलआईसी के सीईओ एवं एमडी आर. दुरैस्वामि ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की पहली लिए यह 1,13,770 करोड़ रुपये थी, जो 4.77 प्रतिशत विमाही के दौरान हमने व्यक्तिगत और समूह व्यवसाय, दोनों में अग्रणी स्थिति बनाये रखी। व्यक्तिगत व्यवसाय में नॉन-पार हिस्सेदारी में वृद्धि, वीएनबी मार्जिन में वृद्धि और बैंका हिस्सेदारी में वृद्धि जैसी हमारी रणनीति के प्रमुख तत्व पूरी तरह से सही दिशा में हैं।

न्यायालय मध्यस्थ / सहायक आवास आयुक्त/सहायक निवन्धक उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,104,महात्मा गाँधी मार्ग,लखनऊ। संख्याः ३९०८ /सह./वाद दिनांकः ८.८.२०२५ सूचना स्व. अयोध्या प्रसाद पुत्र स्व. जगन्नाथ, निवासी सी-47, राजकीय आवास कॉलोनी, रावतपुर, कानपुर के उत्तराधिकारी / पुत्र श्री राजीव कुमार पुत्र स्व. अयोध्या प्रसाद, निवासी सी-10, सी. एस. आई. आर. कालोंनी, निराला नगर, लखनऊ-226020 अधोहस्ताक्षरी के समक्ष गंगा नगर सहकारी आवास समिति लि., कानपुर नगर द्वारा आपके विरुद्ध मध्यस्थ वाद संख्या ३१ई / २०२५ योजित किया गया है। उक्त वाद की नियत विगत सनवार्ड तिथियों में आप उपरिथत नहीं हए हैं। अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको एक और अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि उक्त वाद की नियत अन्तिम सुनवाई दिनॉक 14.08.2025 को पूर्वान्ह 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के यायालय कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष साक्ष्यों सहित प्रस्तृत करना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा उक्त सुनवाई तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो गुण दोष के आधार पर नेर्णय दे दिया जायेगा। (अभिषेक कुमार वर्मा) मध्यस्थ / सहायक आवास आयुक्त/ सहायक निबन्धक

श्रीमान अपर पारिवारिक न्यायाधीश महोदय, माती कानपुर देहात वाद सं. 1298/2023 श्रीमती सोनम देवी उम्र 21 वर्ष पत्नी विपिन उर्फ कन्हैया पुत्री शिवकुमार नि. ग्राम फतेहपुर थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात प्रथिनी बनाम विपिन उर्फ कन्हैया उम्र 25 वर्ष पुत्र श्याम बिहारी निवासी ग्राम महआपुर थाना इन्दरगढ जिला कन्नोज/ वर्तमान पता अक्षरधाम कालोनी पार्ट–3 पुस्ता साई मन्दिर के पास थाना फेज-2 नोयडा चूंकि आपके विरूद्ध श्रीमती सोनम देवी ने वारा 144 भा. ना. सु. सं. फौजदारी प्रार्थनापत्र वास्ते दिलाने गुजारा प्रतिमाह दाखिल किया है। अत : आपको सचित किया जाता है कि आप दिनांक 11.8.2025 को

रवयं न्यायालय में उपरिथत होकर अगर आपको कोई आपत्ति हो तो प्रेषित करें। आपकी अनुपस्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित हो। आजा दिनांक 22. 7.2025 न्यायालय की मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी। आज्ञा से- मुन्सरिम परिवारिक न्यायालय माती कानपुर देहात। न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज कोर्ट

सं0 10 कानपुर नगर मिस0 वाद सं0 615 सन 2025 शनायराज नावालिग गार्जियन बृम्हदेव गुप्ता बालिग उम्र 52 वर्ष पुत्र स्व 0 हरी शंकर गुप्ता निवासी डब्लू 21 एम आई जी केशवनगर कानपुर नगर वादी बनाम विकास श्रीवास्तव बालिग पुत्र त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव निवासी मकान नम्बर 127/120 डब्लू 1 पांचवी मन्जिल लवकश अपार्टमेन्ट साकेत नगर कानपुर नगर। प्रतिवादी, वादी ने याचिका अन्तर्गत धारा 7 व 8 एवं सेक्सन 10 गार्जियन एक्ट 1890 के तहत दाखिल किया है जिस किसी को उक्त याचिका के सम्बन्ध में आपत्ति हो तो दिनांक 19.08.2025 को दिन में 10 बजे उपस्थित होकर आपत्ति प्रेषित करे। यदि किसी के द्वारा आपत्ति प्रेषित नहीं की जाती है तो उक्त याचिका की सुनवाई और आदेश पारित किया जायेगा। यह आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया। आज्ञा से - मुंसरिम/रीडर न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं0 10

कानपुर नगर।

दश को ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

नयी दिल्ली, 8 अगस्त। कोयला मंत्रालय के सतत प्रयासों और कोल इंडिया लिमिटेड की तकनीकी साझेदारी के तहत मेघालय में पहली बार वैज्ञानिक और वैध कोयला खनन की शुरुआत हुई है। इससे न केवल पूर्वोत्तर के राज्यों की आर्थिक संरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह देश की ऊर्जा आत्मिनर्भरता और पर्यावरण सरक्षा के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। यह शुरुआत न केवल मेघालय बल्कि भारत की कोयला नीति के लिए भी निर्णायक मोड है। यह पहल देश की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जिससे आने वाले वर्षों में कोयला आयात पर निर्भरता में कमी आ सकती है। साथ ही वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पारदर्शी खनन की प्रतिबद्धता भी बनी रहेगी। वैज्ञानिक खनन की यह शुरुआत दो कोल ब्लॉकों सारिंगखाम ए (पूर्व जयंतिया हिल्स) और पिंडेंगशाहलांग (पश्चिम खासी हिल्स) में की गयी है, जिन्हें सभी वैधानिक अनुमतियों और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बाद उत्पादन की अनमति दी गयी। सारिंगखाम ए में 3 जन 2025 से खनन शरू हो चुका है, जबकि पिंडेंगशाहलांग में 5 जून से उत्पादन प्रारंभ हो गया है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात पत्र संख्या भ-99-(29- अनु-थाना) /2005 दिनांक.07.8.2025

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानों के आवासीय/ अनावासीय भवनों की विशेष मरम्मत के कार्यों को कराये जाने हेतु दिनांक 08.08.2025 को अति परिक्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकृत/ इच्छुक ठेकेदार निविदा फार्म व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में पुलिस कार्यालय (माती मुख्यालय) कानपुर देहात में प्रापत कर सकते हैं।

अरविन्द मिश्र पुलिस अधीक्षक कानपुर देहत

Central Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911 क्षेत्रीय कार्यालयः 113/179, स्वरूप नगर, कानपुर-208002

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिए) सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटीज इन्ट्रेस्ट एक्ट — 2002 के नियम 3 के साथ घारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न खातों के सामने उल्लिखित तिथि को बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया, जिसमें आगे यह कहा गया था कि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाया राशि को चुकता कर दें। ऋणी/गारन्टर द्वारा बकाया राशि चुकता न कर सकने पर एतद् द्वारा ऋणी/गारन्टर एवं आम जनता को सुधित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा खाते के सामने उल्लिखित तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शवित्तयों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेषतया ऋणी/गारन्टर एवं आम जनता को एतद द्वारा सावधा किया जाता है कि वह इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से संव्यवहार न करें। सम्पत्ति के सम्बन्ध में किया गया कोई भी संव्यवहार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को देय राशि व उस पर देय ब्याज व अन्य व्यय प्रभार के शर्तों के अनुसार होगा। ऋणी को सूचित किया जाता है कि बंधक परिसम्पत्तियाँ मुक्त करने के लिए सरफेसी अधिनियम धारा 13 की उप–धारा8, के अर्न्तगत ऋण मुक्ति निर्देशित समय के सम्बन्ध में प्रावधान दिया गया है।

सम्पत्ति का विवरण जिन पर कब्जा किया गया है

नोटिस तिथि एवं उस खाते का नाम एवं ऋणी/गारंटर के नाम एवं पते तिथि को बकाया 1. ऋणीः श्री दिवाकर गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार, पताः एलआईजी-34, केडीए 07.08.2025 06.03.2025 ₹ 19,29,686.39 कॉलोनी चंद्रनगरी, सनिगवां रोड, कानपुर नगर, पिन-208021 दिनांक 01.03.2025 तक एवं ब्याज सहित दिनांक 02.03.2025 से उसपर अन्य कानूनी खर्चें संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर संपत्ति स्थित प्लॉट संख्या ई–92, ब्लॉक ईडब्लूएस, स्कीम स्वर्ण जयंती विस्तार भाग–2, कानपर नगर. पिन–208021

संपत्ति के मालिकः श्री दिवाकर गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार क्षेत्रफल 30.00 वर्ग मीटर (कवर्ड एरिया)

चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट संख्या ई-91, दक्षिणः प्लॉट संख्या ई-93, पूर्वः प्लॉट संख्या ई-111, पश्चिमः 6.00 मीटर चौड़ी सड़क दिनांकः 09.08.2025 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

जयके एंटरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन: L55101UP1961PLC001187

पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर यूपी २०८००१ दूरभाष:- +91 512 2371478-81,

ई-मेल:cs@jaykayenterprises.com | वेबसाइट:- www.jaykayenterprises.com

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों का विवरण सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ ("सेबी सूचीकरण विनियम") के

विनियम ३३ के अनुपालन में, जेके एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल ने शुक्रवार, ८ अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए, लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अनुसार, कंपनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड) को मंजूरी दी हैं। कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट <u>www.jaykayenterprises.com</u> और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर उपलब्ध हैं।

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 47 के अनुपालन में, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि निम्नलिखित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड को स्कैन करके भी इन्हें देखा जा सकता है:



दिनांक: ८ अगस्त, २०२५ स्थान: नई दिल्ली

कृते जयके एंटरप्राइजेज लिमिटेड हस्ता./-अभिषेक सिंघानिया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **DIN: 00087844**